



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 25, 2001 (भाद्रपद 3, 1923)

No. 34]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 25, 2001 (BHADRA 3, 1923)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices Issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक  
केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई-400 021, दिनांक 17 अगस्त 2001

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्रीय बोर्ड के लिए दो निर्देशनों के चुनाव हेतु शुक्रवार दिनांक 31 अगस्त, 2001 को डॉ. एनी बेसेंट रोड, बरली, मुंबई-400 018 (महाराष्ट्र) में प्रातः 10.00 बजे आयोजित होने वाली शेयरधारकों की महासभा के लिए भारतीय स्टेट बैंक सामान्य धिनियमों के धिनियम 21(1) के अनुसार दिनांक 2 जुलाई 2001 को जारी और भारत सरकार के 14 जुलाई 2001 के गजट में प्रकाशित अधिसूचना के संदर्भ में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दो रिक्त स्थानों के लिए वैध रूप से नामांकित प्रत्याशियों के नाम और वोट निम्नलिखित हैं।

1. डॉ. आई. जी. चडेल  
12 अनी सोलावडी,  
दिवालीवाड़ा, ओरुड पावरा रोड,  
बडोदा-390 919

2. श्री अजय जी. पीरामल  
अध्यक्ष, पीरामल एंटरप्राइजेज,  
डॉ. आंबेडकर रोड,  
परेल, मुंबई-400 012
3. श्री सुनील भागव  
1, चारक कालेज रोड,  
बनी पार्क, जयपुर।

आई. राधाकृष्णन  
प्रबंध निदेशक

ज्ज्ञान है। यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहे, तो उन्हें इस आशय की लिखित सूचना प्रबंध निदेशक को देनी चाहिए जो मतदान आरंभ होने से पूर्व उन्हें प्राप्त हो जाए।

=====  
इंडियन बैंक  
प्रधान कार्यालय

मुंबई-600 001, दिनांक 7 अगस्त 2001

नं. एफ.एलआरसी/223सी-बैंककारी सचिनी (उपक्रमों की अज्ञेय एवं अंतरण) अधिनियम, 1979 (1979 का 9) की धारा 19 द्वारा

पदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इंडियन बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से इंडियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 में संशोधन करने के लिए, एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः--

(1) (1) इन विनियमों को इंडियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001 कहा जा सकेगा।

(ii) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

(2) इंडियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 में, विनियम 20 के उप-विनियम (4) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः--

“(4) कोई भी अधिकारी कर्मचारी यदि अपने स्वयं के नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से 25,000 रुपये से अधिक मूल्य की चल सम्पत्ति का स्वामित्व लेता है या ऐसी सम्पत्ति रखता है तो वह इससे संबंधित प्रत्येक लेन-देन की सूचना सक्षम अधिकारी को देगा।

अर्थात् कि ऐसा लेन-देन

(क) अधिकारी कर्मचारी के साथ सरकारी लेन-देन करने वाले व्यक्ति के साथ, या

(ख) नियमित या प्रतिष्ठित व्यापारी को छोड़कर अन्य के साथ किया गया हो,

तो सक्षम अधिकारी की पूर्ण स्वीकृति ली जाएगी।”

सेल्वम वीरराघवन  
सहायक महा प्रबंधक (कार्मिक)  
अधिकारी का नाम एवं पदनाम

पाद-टिप्पणी : भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 04-03-89 की अधिसूचना संख्या 9 द्वारा मुख्य विनियमों को संशोधित किया गया था।

चेन्ई-600 001, दिनांक 7 अगस्त 2001

सं एसआरसी/223--बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंशगण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इंडियन बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्व मंजूरी से, एतद्वारा इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है :--

1. (1) ये विनियम इंडियन बैंक अधिकारी सेवा (संशोधन) विनियम, 2001 कहलाएंगे।

(2) इन विनियमों में उपबंधित अन्यथा को छोड़कर ये सरकारी गजट में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में,

(क) विनियम 12 में, उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम शामिल किया जाएगा, अर्थात् :--

(4) किसी अधिकारी को,

(क) जिसने उप-विनियम (1) में उल्लिखित विकल्प का प्रयोग किया है और

(ख) जिसने पहली फरवरी 1984 के पश्चात् भी नियत दिनांक के तत्काल पूर्व उसे लागू वेतन और भत्ते प्राप्त करना जारी रखा है; और

(ग) जो पहली अप्रैल, 1997 को या उसके पश्चात् बैंक की नियमित सेवा में बना रहा है,

पहली अप्रैल, 1997 को या उसके बाद से, इन विनियमों के अधीन लागू वेतन एवं भत्तों के लिए विकल्प देने की अनुमति दी जाए। ऐसे विकल्प का प्रयोग करने पर, उसका वेतन पर नियतन इस रीति से किया जाएगा कि उप विनियम 4(2) में निर्दिष्ट वेतन, 01-04-1997 को उस पर देय महंगाई भत्ते के साथ 31-03-1997 को उप विनियम (2) के अनुसार उसके द्वारा आहरित उसके मौजूदा वेतन (अर्थात् वेतन तथा महंगाई भत्ता) के लगभग है।

(ख) विनियम 23 में,

(i) उप विनियम (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाएगा, अर्थात् :--

‘परंतु पहली अप्रैल, 1997 को और उसके बाद से, इस उप विनियम के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो अक्षर, अंक और शब्द “रु. 40/- प्र. मा. या रु. 25/- प्र. मा.” के लिए क्रमशः अक्षर, अंक और शब्द “रु. 125/- प्र. मा. या रु. 100/- प्र. मा.” प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं;’

(ii) उप विनियम (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाएगा, अर्थात्,

‘परंतु पहली अप्रैल, 1997 को और उसके बाद से, इस उप विनियम के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो अक्षर, अंक और शब्द “रु. 150/- प्र. मा.” के लिए अक्षर, अंक और शब्द “रु. 300/- प्र. मा.” प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं;’

(iii) उप विनियम (v) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाएगा, अर्थात् :--

‘परंतु पहली अप्रैल 1997 को और उसके बाद से, इस उप विनियम के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे, मानों,--

(क) अक्षर और अंक “रु. 700/-” के लिए, अक्षर और अंक “रु. 1000/-” प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं;

(ख) पहले तथा दूसरे परंतुक में दोनों स्थानों पर आने वाले अक्षर और अंक “रु. 350/-” क्रमशः अक्षर और अंक “रु. 500/-” से प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं;’

(vi) उप विनियम (vii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाएगा, अर्थात् :--

‘परंतु वित्तीय वर्ष 1997-98 को और उसके बाद से, उप विनियम के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानों अक्षर और अंक “रु. 150/-”

के लिए अक्षर और अंक "रु. 250/-" प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं;

(v) उप विनियम (viii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाएगा, अर्थात् :--

'परंतु पहली अप्रैल, 1997 को और उसके बाद से, इस उप विनियम के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो अक्षर और अंक "रु. 35/- प्र. मा." के लिए अक्षर, शब्द और अंक "रु. 70/- प्र. मा." प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं;

ग. विनियम 32 में, उप विनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--

'परंतु वर्ष 1997 में या किसी अनुवर्ती वर्ष में न ली गई आकस्मिक छुट्टी, आगामी तीन वर्षों में बीमारी छुट्टी के बाद में या पहले जोड़ी जा सकती है;

घ. विनियम 42 में,

(i) उप विनियम 2(i) में, शब्द और अंक "01-07-1993 को और उसके बाद से" के लिए, शब्द और अंक "01-07-1993 को और उसके बाद से परंतु 01-04-1997 से पूर्व" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप विनियम 2(i) के पश्चात्, निम्नलिखित उप विनियम शामिल किया जाएगा, अर्थात् :--

2(i)(क) पहली अप्रैल, 1997 को और उसके बाद से, स्थानांतरित अधिकारी को मालगाड़ी से अपने सामान के परिवहन के लिए निम्नलिखित सीमाओं के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी :

वेतन श्रेणी	अधिकारी जिसका परिवार है	अधिकारी जिसका परिवार नहीं है
रु. 4250/- प्र.मा. से रु. 6210/- प्र.मा. तक	3000 किलोग्राम	1500 किलोग्राम
रु. 6211/- प्र.मा. और उससे अधिक	पूरा माल डिब्बा	2500 किलोग्राम

(iii) उप विनियम (3) में, शब्द और अंक "01-01-1987 को और उसके बाद से" के लिए, शब्द और अंक "01-01-1987 को और उसके बाद से परंतु 01-04-1997 से पूर्व" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iv) उप विनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप विनियम शामिल किया जाएगा, अर्थात् :--

3(क) पहली अप्रैल 1997 को और उसके बाद से, स्थानांतरित अधिकारी सामान की पैकिंग, स्थानीय परिवहन और बैगेज का बीमा आदि से सम्बद्ध व्यय हेतु निम्नानुसार एकमुश्त राशि पाने का पात्र होगा :--

श्रेणी	एकमुश्त राशि
शीर्ष कार्यपालक एवं वरिष्ठ प्रबंधन	रु 5000
मध्य प्रबंधन एवं कनिष्ठ प्रबंधन	रु. 4000

सेल्वम वीरराघवन  
सहायक महा प्रबंधक (का.)

पाद टिप्पणी--उपर्युक्त विनियम में इससे पूर्व किए गए संशोधन भारत के गजट में नीचे दी गई तारीखों को निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

	अधिसूचना सं.	दिनांक
1.	22	31-05-1997
2.	25	16-03-2000

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान  
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

चेन्नई-600 034, दिनांक 24 जुलाई 2001

सं. 3 एससीए (5)/3/2000-2001--इस संस्थान की अधिसूचना सं. 3 एससीए (4)/4/1994-1995 दिनांक 22-02-1995 के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्र.सं.	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	029443	ई. एस. रमेश, एससीए चार्टर्ड एकाउंटेंट फ्लैट एफ, बीसवीं मंजिल, फर्ट ब्लॉक, कनॉट गार्डन्स, 155, कनॉट रोड (वेस्ट), हंग कांग।	18-12-1995

अशोक हर्नन्द्या  
सचिव

## STATE BANK OF INDIA

## CENTRAL OFFICE

Mumbai-400 021, the 17th August 2001

## NOTICE

With reference to the Notice dated the 2nd July, 2001 issued in terms of Regulation 21(1) of the State Bank of India General Regulations, published in the Gazette of India of the 14th July 2001, regarding the holding of the General Meeting of the Shareholders of the Bank at Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400 018 (Maharashtra), at 10.00 A.M. on Friday, the 31st August, 2001, for election of two Directors on the Central Board under the provisions of Section 19(c) of the State Bank of India Act, notice is hereby given that the following are the names and addresses of the candidates validly nominated for the two vacancies :—

1. Dr. I. G. Patel, 12, Ami Society, Diwalipara, Old Padra Road, Baroda-390 015.
2. Shri Ajay G. Piramal, Chairman, Piramal Enterprises, Dr. Ambedkar Road, Parel, Mumbai-400 012.
3. Shri Sunil Bhargava, 1, Pareck College Road, Bani Park, Jaipur.

Y. RADHAKRISHNAN  
Managing Director

**N.B. :** Should any of the candidates wish to withdraw his/her nomination such withdrawal must be made in writing addressed to The Managing Director, and received before the commencement of the voting for the election.

## INDIAN BANK

## HEAD OFFICE

Chennai-600 001, the 7th August 2001

No. F. SRC/223C—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Indian Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Indian Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976, namely;—

1. (i) These Regulations may be called the Indian Bank Officer Employees' (Conduct) Amendment Regulations, 2001.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the "Official Gazette".

2. In the Indian Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976 in regulation 20, for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely;—

"(4) Every Officer employee shall report to the Competent Authority every transaction concerning movable property owned or held by him either in his name or in the name of a member of his family if the value of such a property exceeds Rs. 25,000/- :

Provided that the previous sanction of the Competent Authority shall be obtained if any such transaction is—

(a) with a person having official dealings with the Officer employee; or

(b) otherwise than through a regular or reputed dealer."

SALVAM VEERARAGHAVAN

Asst. General Manager (Pl.)

**Footnote :** The Principal Regulations were amended vide notification No. 9 dated 04-03-89 published in the Gazette of India, Part III—Section 4.

The 7th August 2001

No. SRC/223—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Indian Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979 :—

1. (1) These Regulations may be called the Indian Bank Officers' Service (Amendment) Regulations, 2001.

(2) Save as otherwise provided in these regulations, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979

(a) in regulation 12, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely :—

(4) Any Officer,

(a) who had exercised option referred in sub-regulation (1); and

(b) who continued even after the first day of February, 1984 to draw pay and allowances applicable to him immediately before the appointed date; and

(c) who continues in regular service of the bank on or after the first day of April, 1997

may be allowed to opt for pay and allowances as applicable under these regulations on and from the first day of April, 1997; on exercising such option, he will be fitted on the pay in such a manner that the pay as set out in Regulation

4(2) alongwith the dearness allowance payable thereon as on 01-04-1997 is nearest to his existing salary (i.e. pay plus dearness allowance) being drawn in terms of sub-regulation (2) on 31-03-1997.

(b) in regulation 23,

(i) after sub-regulation (iii), the following proviso shall be inserted, namely

'Provided that on and from the first day of April, 1997, the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters, figures and words "Rs. 40/- p.m. or Rs. 25/- p.m.", the letters, figures and words "Rs. 125/- p.m. or Rs. 100/- p.m." had been respectively substituted.'

(ii) after sub-regulation (iv), the following proviso shall be inserted, namely

'Provided that on and from the first day of April, 1997, the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters, figures and words "Rs. 150/- p.m.", the letters, figures and words "Rs. 300/- p.m." had been substituted.'

(iii) in sub-regulation (v), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely;—

'Provided that on and from the first day of April, 1997 the provisions of this sub-regulation shall have effect as if,—

(A) for the letters and figures "Rs. 700/-", the letters and figures "Rs. 1000/-" had been substituted;

(B) for the letters and figures "Rs. 350/-" occurring at both the places in first and second proviso, the letters and figures "Rs. 500" had been substituted';

(iv) after sub-regulation (vii), the following proviso shall be inserted, namely

'Provided that on and from the financial year 1997-98, the provisions of the sub-regulation shall have effect as if for the letters and figures "Rs. 150/-" the letters and figures "Rs. 250/-" had been substituted';

(v) after sub-regulation (viii), the following proviso shall be inserted, namely

'Provided that on and from the first day of April, 1997 the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters and figures "Rs. 35/- p.m.", the letters, words and figures "Rs. 70/- p.m." had been substituted';

(c) in regulation 32, after sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted, namely —

'Provided that Casual leave not availed of in the year 1997 or in any subsequent year may be

suffixed or prefixed to sick leave in the following three years',

(d) In regulation 42,—

(i) in sub-regulation 2(i), for the words and figures "On and from 01-07-1993", the words and figures "On and from 01-07-1993 but before 01-04-1997" shall be substituted,

(ii) after sub-regulation 2(i), the following sub-regulation shall be inserted, namely :—

"2(i)(a) On and from the first day of April, 1997, an officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train upto the following limits :

Pay Range	Where an officer has family	Where an officer has no family
Rs. 4250/- p.m. to Rs. 6210/- p.m.	3000 kgs	1500 kgs
Rs. 6211/- p.m. and Above	Full Wagon	2500 kgs.

(iii) in sub-regulation 3, for the words and figures "On and from 01-01-1987", the words and figures "On and from 01-01-1987 but before 01-4-1997" shall be substituted;

(iv) after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted :—

3(a) "On and from the first day of April, 1997 an Officer on transfer will be eligible to draw a lump sum amount as indicated below for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc. :

Grade	Lump sum
Top Executive and Senior Management	Rs. 5000
Middle Management and Junior Management	Rs. 4000

SELVAM VEERARAGHAVAN  
Asst. General Manager (PI)

**Foot Note** —The amendments carried out earlier in the above Regulations were published in the Gazette of India vide Notification Nos. with dates as under :

Notification No.	Dates
1. 22	31-05-1997
2. 25	16-03-2000

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS  
OF INDIA

Chennai-600 034, the 24th July 2001

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3SCA(5)/3/2000-2001—With reference to this Institute's Notification No. 3SCA(4)/4/1994-1995 dated 22-2-1995 it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members

with effect from 18-12-1995 the name of the following member.

S.No.	MRN	Member Name & address	Restore Date
1.	029443	E. S. Ramesh, ACA Chartered Accountant Flat-F, 20th Floor First Block, Connaught Gardens 155 Connaught Road (W) Hong Kong.	18-12-1995

ASHOK HALDIA  
Secretary